

## मुख्यमंत्री ने तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की



**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2017) के लिए की जा रही तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने निर्देशित किया कि योग दिवस के पूर्व सम्पूर्ण लखनऊ नगर में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऊर्जा दक्षता एवं कम विद्युत खपत के लिए एल०ई०डी० बल्ब लगाए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल रमाबाई अम्बेडकर मैदान के आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके आसपास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम स्थल के अतिरिक्त प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसीलों, एवं विकास खण्डों के सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों एवं पार्कों में भी व्यापक रूप से योग कार्यक्रम सम्पादित कराने के लिए व्यवस्था मुकम्मल करायी जाए। साथ ही, लखनऊ नगर के अन्य सार्वजनिक स्थानों एवं पार्कों में आम नागरिकों की सुविधा हेतु एल०ई०डी० स्क्रीन लगाकर लाइव टेलीकास्ट कराने एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा। योगी जी ने कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित समितियों को अपने दायित्वों का पूरी गम्भीरता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व 7 जून, 2017 को आयुष विभाग द्वारा राजभवन में योग दिवस के कर्टन रेजर के रूप में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन 452 योग प्रशिक्षकों को विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के लिए नामित किया गया है। उनके सहयोग से लोगों को अधिक से अधिक पारंगता के साथ योग करने का प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोगों को निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप टी-शर्ट उपलब्ध कराने तथा कार्यक्रम स्थल तक प्रतिभागियों को लाने हेतु बसों की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये। योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप का समुचित उपयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करायी जाए। ज्ञातव्य है कि 21 जून, 2017 को लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ करीब 70,000 लोग प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपेक्स स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सचिव आयुष, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सहित 15 अधिकारी शामिल किये गये हैं, जिनमें पुलिस महानिदेशक तथा प्रमुख सचिव गृह भी सदस्य के रूप में नामित हैं। इसके अलावा, को-आर्डिनेशन कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, साइट कमेटी, योगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ट्रान्सपोर्ट कमेटी, मीडिया एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग कमेटी, स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण कमेटी तथा आमंत्रण पत्रों की तैयारी वितरण एवं पार्किंग हेतु भी कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम शासकीय नहीं बल्कि जनसामान्य का योग कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में पतंजलि संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, मोक्षायतन, ब्रह्मकुमारी, देव संस्कृति जैसी संस्थाओं के अलावा एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सी०आर०पी०एफ०, बी०एस०एफ०, सेना सहित राज्य सरकार के कई विभाग भी प्रतिभाग कर रहे हैं। बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे।

# आगामी योग दिवस यादगार रहना चाहिए : प्रधानमंत्री



नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि आगामी तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि विश्व शांति में योगदान देने के लिए यह एक उपयुक्त तरीका है। उन्होंने कहा कि लोगों को तनाव मुक्त जीवन के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस से पहले अपने संदेश में कहा कि योग शरीर के विभिन्न अंगों की तरह दुनिया के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने ट्वीट किया, "21 जून को दुनिया तीसरा योग दिवस मनाने के लिए एकजुट होगी। आइए हम इस अवसर को यादगार बनाएं।" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "योग दुनिया को आपस में एकीकृत कर रहा है। आइए, योग को लोकप्रिय बनाने के लिए एक योगी बनिए और एक बेहतर और कहीं ज्यादा स्वस्थ समाज बनाइए।" ट्वीट के साथ पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के लोग तनावमुक्त, संकट रहित और रोग रहित जीवन चाहते हैं। उन्होंने कहा, "लोग खुशहाल जीवन चाहते हैं और यह योग से हो सकता है।" मोदी ने कहा कि योग किसी व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से एक संतुलित जीवन संभव कर सकता है। उन्होंने कहा, "योग किसी व्यक्ति की अंतरआत्मा को जगा सकता है।" प्रधानमंत्री ने योग करने वाले सभी लोगों से यह संकल्प लेने को कहा कि वे अधिकतम संख्या में लोगों को इसे सिखाए, ताकि वे विश्व शांति में योगदान दे सकें।